



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 156]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 29, 1970/भाद्र 7, 1892

No. 156]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 29, 1970/BHADRA 7, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। यह
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August 1970

G.S.R. 1267.—In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Passports (Second Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule II of the Passports Rules, 1967, under the heading "PART I—PASSPORTS", in the Table, for item III and the entries relating thereto the following item and the entries relating thereto shall be substituted, namely:—

"III. Diplomatic Passports (1) (a) Officers of the Indian Foreign Service (Branch A).

(b) Such officers of the Indian Foreign Service (Branch B) and other officers of the Ministry of External Affairs and other Ministries or Departments of the Government of India who are proceeding abroad on

official business or are posted to Indian Missions or Posts abroad, as may be determined by the Central Government.

- (c) The following members of the family of an official referred to in (a) and (b) above, when travelling with, or joining, such officer at his post abroad, namely:—

Wife or official hostess, husband, dependent sons under 24 years and dependent unmarried daughter's, dependent father and mother.

NOTE.—Any member of the family referred to in (c) above of an officer who is actually holding a diplomatic assignment abroad may also issued a diplomatic passport for staying in a country other than the country of accreditation of the officer for study or other approved purposes; a diplomatic passport issued in such a case shall, however, be surrendered when the diplomatic assignment of the officer is terminated or when the officer is posted back to the headquarters.

- (2) (a) A person having or having been granted a diplomatic status, either because of the nature of his foreign mission or because of the position he holds, as may be determined by the Central Government.
- (b) Wife or husband, dependent sons under 24 years and dependent unmarried daughters of a person referred to in (a) above when accompanying the said person."

[No. VII/405/17/69.]

S. K. BANERJI, Secy.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त 1970

जी० एस० अ० 1267.—पासपोर्ट अधिनियम 1967 (1967 का 15 वां) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इसके द्वारा पासपोर्ट नियम, 1967 में संशोधन करने के लिए नीचे लिखे नियम भी बनाती है, यथा:—

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (द्वितीय संशोधन) नियम 1970 की संज्ञा दी जायगी ।

- (2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से लागू हो जायेंगे ।

2. पासपोर्ट नियम, 1967 की अनुसूची—दो में "भाग—1—पासपोर्ट" शीर्षक के अन्तर्गत मद संख्या—3 की सारिणी तथा उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद तथा उपमे सम्बद्ध प्रविष्टियां रखी जायेंगी यथा :—

(III). राजनयिक पासपोर्ट (1) (क) भारतीय विदेश सेवा शाखा 'क' के अधिकारी ।

(ख) भारतीय विदेश सेवा (शाखा—ख) के और विदेश मंत्रालय तथा भारत सरकार के दूसरे मंत्रालयों और विभागों के ऐसे अधिकारी जो सरकारी काम से विदेश जा रहे हैं अथवा भारतीय मिशन या विदेशी केन्द्र में नियुक्त किए गए हों, जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार निश्चय करे ।

(ग) ऊपर (क) और (ख) में उल्लिखित किसी अधिकारी के परिवार के निम्न-लिखित सदस्य जब उसके साथ जा रहे हों अथवा विदेश स्थित किसी केन्द्र में जहां वह हो, उसके पास जा रहे हों, यथा—

पत्नी अथवा अधिकृत परिवारिका, पति, 24 वर्ष से कम उम्र के आश्रित पुत्र और अविवाहित आश्रित पुत्रियां और माता पिता, जो उन पर आश्रित हों ।

नोट:—किसी ऐसे अधिकारी के परिवार के ऊपर (ग) में उल्लिखित किसी सदस्य को भी, जो विदेश में राजनयिक कार्य कर रहा हो, अधिकारी के प्रत्यापन के देश से इतर देश में अध्ययन अथवा किसी अन्य स्वीकृत उद्देश्य से ठहरने के लिए राजनयिक पासपोर्ट जारी किया जा सकता है लेकिन ऐसे मामलों में जारी यह राजनयिक पासपोर्ट उस अधिकारी का राजनायक-कार्यभार समाप्त होने पर अथवा उसके पुनः मुख्यालय में स्थानान्तरित हो जाने पर वापस कर दिया जायेगा ।

(2) (क) किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे विदेश में अपने कार्य की प्रकृति के कारण अथवा अपने स्थान के कारण राजनयिक दर्जा रखा हो अथवा जिसे राजनयिक दर्जा दिया गया हो जैसा भी केन्द्र सरकार निश्चय करे ।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित व्यक्ति की पत्नी अथवा पति, 24 वर्ष से कम उम्र के आश्रित पुत्र तथा अविवाहित आश्रित पुत्रियां जब उसके साथ जा रहे हों ।

[सं. वि० आई० आई०/405/17/69.]

एस० के० अनर्जी, सचिव ।

